



Subject - Pharmacy Law and Ethics

Topic -



Good Regulatory Practice



♥ D.Pharm 2nd year ♥





GOOD REGULATORY PRACTICE (GRP)



अच्छी नियामक कार्यप्रणाली

Definition (परिभाषा)

- Good Regulatory Practice refers to principles and procedures used by regulatory authorities to develop and implement clear, fair, transparent and effective regulations.



- गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस उन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को कहा जाता है जिनके द्वारा नियामक संस्थाएँ स्पष्ट, निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी नियम बनाती तथा लागू करती हैं।



Key Features (मुख्य विशेषताएँ)

Clear
(स्पष्ट)



Rules are simple, understandable and unambiguous.

Fair
(निष्पक्ष)



Decisions are impartial and just.

Transparent
(पारदर्शी)



Information and processes are open and accessible.

Effective
(प्रभावी)



Regulations achieve their intended objectives.

Accountable
(उत्तरदायी)



Authorities are responsible for their actions.



GOOD REGULATORY PRACTICE (GRP)



अच्छी नियामक कार्यप्रणाली

Objectives (उद्देश्य)

1. Protect public health and safety.

जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा की रक्षा करना।



2. Ensure quality, safety and efficacy of products.

उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।




3. Promote transparent decision-making.

निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना।



4. Reduce unnecessary regulatory burden.

अनावश्यक नियामक बोझ को कम करना।



5. Encourage innovation and fair competition.

नवाचार एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।



GOOD REGULATORY PRACTICE (GRP)

अच्छी नियामक कार्यप्रणाली

Main Components (मुख्य घटक)

1. Problem identification

समस्या की पहचान



2. Risk assessment and scientific evaluation

जोखिम आकलन एवं वैज्ञानिक मूलांकन




3. Stakeholder consultation

हितधारकों से परामर्श



4. Development and implementation of regulations

नियमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन



5. Monitoring, review and improvement

निगरानी, समीक्षा एवं सुधार



GOOD REGULATORY PRACTICE (GRP)

अच्छी नियामक कार्यप्रणाली

Key Principles (मुख्य सिद्धांत)

1.

Legality: Regulations should follow the law.

वैधानिकता: नियम कानून के अनुसार होने चाहिए।



2.

Transparency: Rules and decisions should be clearly communicated.


पारदर्शिता: नियम और निर्णय स्पष्ट रूप से बताए जाने चाहिए।



3.

Consistency: Similar cases should be treated equally.

संगति: समान मामलों में समान निर्णय होना चाहिए।



4.

Proportionality: Regulatory action should match the level of risk.

अनुपातिकता: नियामक कार्रवाई जोखिम के स्तर के अनुसार होनी चाहिए।



5.

Accountability: Authorities should be responsible for their decisions.

उत्तरदायित्व: संस्थाएँ अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होनी चाहिए।



6.

Scientific approach: Decisions should be based on scientific evidence.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण: निर्णय वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित होने चाहिए।





BEST BOOKS FOR D.PHARMA 2ND YEAR
Bilingual Book (द्विभाषी पुस्तक)

As per the
PCI syllabus
of 1st & 2nd semesters

CASH ON DELIVERY AVAILABLE ON 6395596959, 8006781759



COD AVAILABLE ON



D.Pharm 2nd Year

MISSION BIEUP
Bilingual (Hindi+English)

1 BOOK कितनाब | 2 LANGUAGE भाषाएँ | 6 SUBJECT विषय

FULLY COLOURED IMAGE | 306 TABLETS WITH IMAGES | 1260 ONE MARK QUESTIONS | FREE PRACTICE QUESTIONS

Subjects Covered
PHARMACOLOGY
COMMUNITY PHARMACY & MANAGEMENT
BIOCHEMISTRY & CLINICAL PATHOLOGY
PHARMACOTHERAPEUTICS
HOSPITAL & CLINICAL PHARMACY
PHARMACY LAW & ETHICS

Contact for any Query - 6395596959




PHARMACY INDIA
www.pharmacyindia.co.in



PHARMACY INDIA

www.pharmacyindia.co.in





Join YouTube Channel



Pharmacy India Live

For Pharmacist Exam Preparations

SUBSCRIBE



Join WhatsApp & Telegram Channel



WhatsApp



Telegram

PHARMACY INDIA



Join Pharmacy India app



PHARMACY INDIA